



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ 1939 (श0)
(सं0 पटना 575) पटना, मंगलवार, 04 जुलाई 2017

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 जुलाई 2017

सं0 बी1-3-43/2017-24—उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-480/2017-बी. ई. दिनांक 04 जुलाई, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-480/2017(1)-बी. ई. दिनांक 04 जुलाई, 2017 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
अपर सचिव।

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 दिनांक 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (शक)

सं०: संख्या 480/2017-बी. ई.:— यतः, मो० हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2017 को समाप्त हो रही है; और

यतः पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस तरह प्रकार नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2017 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	: 18 जुलाई, 2017 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	: 19 जुलाई, 2017 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 21 जुलाई, 2017 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा	: 5 अगस्त, 2017 (शनिवार)

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated : 4th July, 2017/
Ashadha 13, 1939 (Saka)*

No. 480/2017-BE- Whereas, the term of office of Mohd. Hamid Ansari, Vice-President of India, is upto 10th day of August, 2017, in terms of Article 67 of the Constitution; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2017;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) call upon the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of Vice-President of India before the expiration of the term of the incumbent Vice-President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints –

- a) the 18th July, 2017 (Tuesday), as the last date for making nomination;
- b) the 19th July, 2017 (Wednesday), as the date for scrutiny of the nominations;
- c) the 21st July, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
- d) the 5th August, 2017 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,
R.K. SRIVASTAVA,
Sr. PRINCIPAL SECRETARY.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 दिनांक 4 जुलाई, 2017/13 आषाढ़, 1939 (शक)

संख्या 480/2017 (1)-बी. ई.- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा:

(क) अपनी दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं0 480/2017-बी. ई. के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं0 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated : 4th July, 2017/
Ashadha 13, 1939 (Saka)*

No. 480/2017 (1)-BE- In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission hereby;

- (a) fixes Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Election to be held in accordance with its Notification No. 480/2017-BE dated the 4th July, 2017; and
- (b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By Order,
R.K. SRIVASTAVA,
Sr. PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 575-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>